

# समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» जवान और शीशे सी रिकन के ...



## चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक निर्वाचन आयोग ने अपलोड किया डेटा

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 12 मार्च 2024 को चुनाव आयोग (ईसीआई) को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा मुहैया करा दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर गुरुवार को डेटा अपलोड कर दिया गया। वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड एसबीआई से प्राप्त डेटा को जस के तस अपलोड कर दिया गया है।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वालों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेधा इंजीनियरिंग, पिरामल एंटरप्राइजेज शामिल हैं। इसमें टॉरेट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा सूची में

ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्तों में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था।

एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थान है।

इसके साथ ही चुनाव आयोग की ओर से साझा की जानकारी में बताया गया है कि इन बॉन्ड्स के जरिए भाजपा, कांग्रेस, अनामदमुक, बीआरएस, शिवसेना, तेदेपा, वाईएसआर कांग्रेस को धन मिला। सूची में द्रमुक, जद(एस), राकांपा, तृणमूल कांग्रेस, जद (यू), राजद, आप और सपा के भी नाम हैं।

### सुको ने दिए थे निर्देश

दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक

एडलवाइस, पीबीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, सन फार्मा के नाम शामिल हैं।

एसबीआई ने मंगलवार शाम को उन संस्थाओं का विवरण चुनाव आयोग को सौंपा था, जिन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और राजनीतिक दलों ने उन्हें धुनाया था। शीघ्र अदालत के आदेश के मुताबिक, निर्वाचन आयोग को 15 मार्च शाम पांच बजे तक बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी थी।

### एसबीआई ने हलफनामे में क्या कहा?

इससे पहले एसबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें बताया गया कि एक अप्रैल 2019 से इस साल 15 फरवरी के बीच दानदाताओं ने कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिनमें से 22,030 को राजनीतिक दलों ने धुनाया। हलफनामे में बताया गया कि प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदार के नाम और खरीदे गए बॉन्ड के मूल्यवर्ग सहित विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। हलफनामे के मुताबिक, एक अप्रैल, 2019 से 11 अप्रैल, 2019 के बीच कुल 3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 1,609 धुनाए गए। हलफनामे में बताया गया कि 12 अप्रैल, 2019 से इस साल 15 फरवरी तक कुल 18,871 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 20,421 धुनाए गए।



### चुनाव आयोग को मिले दो नए आयुक्त, ज्ञानेश और सुखबीर

नई दिल्ली। चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। इसके लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पर एक बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए। बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगी है। पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय के सेवानिवृत्त होने और अरुण गोयल के बीते दिनों इस्तीफे की वजह से चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्तों के पद खाली थे। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल-कैड के आईएस अधिकारी रहे हैं। उनका जन्म 1964 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। मई 2016 में ज्ञानेश को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया था। वहीं मई 2022 में ज्ञानेश कुमार को सहकारिता मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया था। ज्ञानेश कुमार के गृह मंत्रालय में नियुक्ति के दौरान ही अनुच्छेद-370 हटा था। उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहे सुखबीर सिंह संधू भी नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। डॉ. सुखबीर सिंह संधू 1988 बैच उत्तराखंड काडर के आईएस अधिकारी हैं। संधू मूल रूप से उत्तराखंड कैड के अफसर हैं।

## देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन: शाह समिति ने राष्ट्रपति को एक देश-एक चुनाव की रिपोर्ट सौंपी

नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है।



सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि आज का दिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन है। मोदी सरकार द्वारा रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में 'एक देश - एक चुनाव' पर गठित उच्चस्तरीय समिति का प्रतिवेदन, राष्ट्रपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया। 18,626 पृष्ठों वाली यह रिपोर्ट 2 सितंबर, 2023 को उच्च-स्तरीय समिति के

गठन के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है। शाह उस समिति के अन्य सदस्यों में शामिल थे जिसमें राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद; एन के सिंह, पूर्व अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग; सुभाष सी कश्यप, पूर्व महासचिव, लोकसभा; हरीश साल्वे, वरिष्ठ वकील; और संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त। कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य थे और नितेन चंद्रा समिति के सचिव थे।

समिति ने विभिन्न हितधारकों के विचारों को समझने के लिए व्यापक विचार-विमर्श किया। 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए, जिनमें से 32 ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया। इस मामले पर कई राजनीतिक दलों ने समिति के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समाचार पत्रों में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना के जवाब में, पूरे भारत से नागरिकों से 21,558 प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं। उनमें से 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया।

## भारत की मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में सुधार, 134वें स्थान पर पहुंचा देश

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर भारत की रैंकिंग 2022 में एक स्थान सुधारकर 193 देशों में से 134वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि 2021 में 191 देशों में से 135वें स्थान पर थी। लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) 2022 में, भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर है। जीआईआई-2021 में 0.490 स्कोर के साथ 191 देशों में इसकी रैंक 122 थी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि यह जीआईआई-2021 की तुलना में जीआईआई-2022 में 14 रैंक की महत्वपूर्ण छलांग दर्शाता है। हालांकि, देश की श्रम बल भागीदारी दर में सबसे बड़ा लिंग अंतर भी है - महिलाओं (28.3 प्रतिशत) और पुरुषों (76.1 प्रतिशत) के बीच 47.8 प्रतिशत का अंतर।

संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक



(एचडीआई) पर भारत की रैंकिंग 2022 में एक स्थान सुधारकर 193 देशों में से 134वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि 2021 में 191 देशों में से 135वें स्थान पर थी।

लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) 2022 में, भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर है। जीआईआई-2021 में 0.490 स्कोर के साथ 191 देशों में इसकी रैंक 122 थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि यह जीआईआई-2021 की तुलना में जीआईआई-2022

में 14 रैंक की महत्वपूर्ण छलांग दर्शाता है। हालांकि, देश की श्रम बल भागीदारी दर में सबसे बड़ा लिंग अंतर भी है - महिलाओं (28.3 प्रतिशत) और पुरुषों (76.1 प्रतिशत) के बीच 47.8 प्रतिशत का अंतर। 2021 में अपने एचडीआई मूल्य में गिरावट के बाद और पिछले कुछ वर्षों में एक सपाट प्रवृत्ति के बाद, भारत का एचडीआई मूल्य 2022 में बढ़कर 0.644 हो गया है, जिससे देश को हाल ही में जारी 2023/24 मानव विकास में 193 देशों और क्षेत्रों में से 134 वें स्थान पर रखा गया है। 2021 में 0.633 की तुलना में अपने एचडीआई मूल्य में 0.644 की मामूली वृद्धि के कारण भारत 2021 में 191 देशों में से 135वें स्थान पर रहा।

डेटा को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक-रीडेमेजनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड में प्रकाशित किया गया था। यह 2021-2022 मानव विकास रिपोर्ट के निष्कर्षों पर

आधारित है, जिसमें वैश्विक एचडीआई मूल्य में पहली बार लगातार दो वर्षों में गिरावट देखी गई। रिपोर्ट से पता चला कि जहां अमीर देशों ने रिकॉर्ड मानव विकास हासिल किया, वहीं आधे गरीब देशों की प्रगति संकट-पूर्व स्तर से नीचे बनी हुई है। 2022 में, भारत ने सभी एचडीआई संकेतकों में सुधार देखा - जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) और जीवन प्रत्याशा 67.2 से बढ़कर 67.7 वर्ष हो गई, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 12.6 तक पहुंच गए, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष बढ़कर 6.57 हो गए। और प्रति व्यक्ति जीएनआई में 6,542 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 6,951 अमेरिकी डॉलर हो गई।

इसके अलावा, भारत ने लैंगिक असमानता को कम करने में प्रगति प्रदर्शित की है। रिपोर्ट के अनुसार, देश का जीआईआई मान 0.437 वैश्विक और दक्षिण एशियाई औसत से बेहतर है।

## भाजपा ने जाने-पहचाने चेहरों पर दांव लगाया, 6 मौजूदा सांसदों को हटाया

मुंबई। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची महाराष्ट्र में चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति की बेहतर जानकारी देती है। इससे पता चलता है कि भाजपा ने ज्यदातर टिकट उन उम्मीदवारों को दिए हैं जिनकी जीतने की संभावना अधिक है, जबकि छह मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। टिकट से वंचित रहने वाले सांसदों में जलगांव से उमेश पाटिल, अकोला से संजय धोत्रे, मुंबई उत्तर से गोपाल शेटी, मुंबई उत्तर पूर्व से मनोज कोटक, पुणे से गिरीश बापट और बीड से प्रीतम मुंडे शामिल हैं। बता दें कि 13 मार्च की शाम को बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 72 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, महाराष्ट्र में बीजेपी ने उम्मीद के मुताबिक पार्टी टिकट दिए। नागपुर से पार्टी ने पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को मैदान में उतारा है। इसके अलावा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को दो बार के सांसद गोपाल चिनय्या शेटी के स्थान पर मुंबई उत्तर से मैदान में उतारा गया है, जो पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। बीड लोकसभा सीट के लिए, पार्टी ने उनकी बहन प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे की जगह पंकजा मुंडे को अपना उम्मीदवार बनाया है।

### पेट्रोल-डीजल सस्ता हुआ, दो रुपये कम करने का एलान

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की कमी करने का फैसला किया है। नई दरें कल सुबह यानी 15 मार्च सुबह छह बजे से लागू होंगी। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 94.72 रुपये प्रति लीटर होगी, जो फिलहाल 96.72 रुपये प्रति लीटर है। ऐसे ही डीजल 87.62 रुपये में मिलेगा, जो अभी 89.62 रुपये प्रति लीटर है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम 22 रुपये कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री ने महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता के जरिए पीएम मोदी की सराहना की। उन्होंने लिखा, जब विश्व मुश्किल दौर से गुजर रहा था, विकसित और विकासशील देशों में पेट्रोल के दामों में 50-72 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई और हमारे आसपास के कई देशों में तो पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया तब भी 1973 के बाद आए 50 साल के सबसे बड़े तेल संकट के बावजूद पीएम मोदी के दूरदर्शी और सहज नेतृत्व के कारण मोदी के परिवार पर आंच नहीं आई।

### मुख्यमंत्री ममता चोटिल अस्पताल में भर्ती



कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोटिल हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से तस्वीरें जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। टीएमसी ने बताया कि उनकी अध्यक्ष और सीएम ममता बनर्जी को बड़ी चोट लगी है। तस्वीर में ममता के सिर में गहरी चोट दिखाई दे रही है। उनके सिर से खून भी निकल रहा है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक, ममता बनर्जी को कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वे ममता दीदी के शीघ्र स्वस्थ होने के साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जानकारी के मुताबिक, ममता को चोट उनके घर पर ही लगी। परिसर में टहलने के दौरान गिरकर ममता गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, उनके माथे पर टांके लगाए जाएंगे। तृणमूल के एक्स हैंडल (पूर्व में टिवर) ने ममता को तस्वीर जारी की है।

### सीए पर न झुकेंगे और न चुप रहेंगे- विजयन



नई दिल्ली। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन ने दोहराया कि केरल नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू नहीं करेगा और इस मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाया। उनकी पार्टी इंडिया ब्लाॅक में कांग्रेस की सहयोगी है, लेकिन विजयन ने सीएए अधिसूचित होने के बाद कांग्रेस के रुख की आलोचना की है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी तक इस मुद्दे पर बात नहीं की है। विजयन ने कहा कि सीएए पर केरल न तो झुकेगा और न ही चुप रहेगा। यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा स्पष्ट किए जाने के बाद आया है कि राज्यों के पास सीएए कार्यान्वयन में कोई विकल्प नहीं है क्योंकि नागरिकता एक केंद्रीय विषय है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने गुरुवार को कहा कि विजयन भारत के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि यह भारत में हर जगह लागू होगा। विजयन ने कांग्रेस पर सीएए के खिलाफ संयुक्त मोर्चे से पीछे हटने का आरोप लगाया। विजयन ने कहा कि सीएए भारत के विचार के लिए चुनौती है और धार्मिक भेदभाव को वैधता प्रदान करता है। सीएए को सोमवार को अधिसूचित किया गया था।

### बिहार विधान परिषद के सभी 11 उम्मीदवारों निर्विरोध निर्वाचित

नई दिल्ली। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सभी 11 उम्मीदवारों को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। कुमार अपना प्रमाणपत्र लेने के लिए विधानसभा सचिवालय पहुंचे, उनके साथ करीबी सहयोगी राजीव रंजन सिंह %ललन%, जिनके बाद वह जद (यू) के अध्यक्ष बने, और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, दोनों सहयोगी भाजपा से थे। उच्च सदन के लिए चुने गए अन्य लोगों में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (राजद), राज्य मंत्री संतोष सुमन (हम) और पूर्व मंत्री मंगल पांडे (भाजपा) शामिल हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में बिहार के सीट बंटवारे पर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। बीजेपी की तरफ से 17 और जेडीयू को 16 व चिराग पासवान को 4-5 सीट दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हो सका है। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे और बिहार के बिना विस्तार पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सब जल्द हो जाएगा। सब चीज के बारे में खबर मिलेगी। मंत्रीमंडल विस्तार की खबर को लेकर नीतीश ने कहा कि हम लोग लगे हुए हैं और आपको जल्द ही खबर मिलेगी।

### जंगल राज है क्या? मैं इतना साधु नहीं, मेयर पर भड़के राज्यपाल



बंगलुरु। चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार द्वारा यह दावा करने के एक दिन बाद कि पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने उनका अपमान किया है, पुरोहित ने गुरुवार को कहा कि वह उनकी बात नहीं सुनेंगे। चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार ने कहा था कि राज्यपाल पुरोहित ने उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया और सांसद किरण खेर ने उनके बोलने के बाद माइक को हटा दिया। कुमार ने यह भी दावा किया कि राज्यपाल पुरोहित ने न सिर्फ मेरे साथ, बल्कि चंडीगढ़ के नागरिकों के साथ भी दुर्व्यवहार किया... जो हम जो राहत दे रहे थे उससे आजादी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने कहा कि मैं इतना साधु नहीं हूँ कि वे आरोप लगाते रहेंगे और मैं उनकी बात सुनता रहूँगा। जंगल राज नहीं है। एक प्रणाली का पालन हर किसी को करना होगा। उन्होंने कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि फ्री में बांट रहे हो तो पैसा कहाँ से देंगे यह जंगल राज नहीं है... आपको मुफ्त में पानी बांटने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे। मुझे आम जनता के हितों की रक्षा करनी है।

अमित शाह का एएनआई के साथ साक्षात्कार

सीए भाजपा के लिए संवेदना का मुद्दा है

## मोदी सरकार सभी पात्र शरणार्थियों को नागरिकता देगी: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को समाचार एजेंसी एएनआई पांडेकारट को दिए गए इंटरव्यू में भारत सरकार द्वारा हाल ही लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ के तथ्यों को सामने रखा और इस अधिनियम के असली उद्देश्य को देश की जनता के साथ साझा किया। साथ ही उन्होंने कई विषयों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। (भाग-1)

श्री शाह ने चुनाव से पहले सीएए लागू करने पर कहा कि राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी सहित सभी विपक्षी दलों के नेता झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इस बिल के लागू होने के समय के बारे में बात करने का महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि भाजपा ने 2019 लोकसभा

चुनाव के अपने घोषणापत्र में ही सीएए लागू करने की बात कही थी। भाजपा का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और इसी एजेंडे के आधार पर जनता भाजपा को बहुमत दे रही है। 2019 में ये बिल संसद के दोनों सदन में पारित हो गया था और लागू होना तो महज औपचारिकता रह गई थी। विपक्ष इस अधिनियम के समय के बारे में बात कर तुष्टिकरण की राजनीति और वोट बैंक को साधना चाहता है। परन्तु सत्य है कि विपक्ष बेनकाब हो गया है और जनता समझ चुकी है कि सीएए इस देश का अहम कानून है। वहीं चुनाव से पहले इस अधिनियम को लागू करने की तो पिछले 4 वर्षों में ये 41 बार कहा जा चुका है कि ये बिल चुनाव से पहले ही लागू होगा तो अब इसके लागू होने के समय पर प्रश्न खड़े करना अप्रासंगिक है। विधायिका की इच्छा बिल से प्रकट होती है न कि

नियमावली से। भाजपा सरकार ने 2019 में ही ये बिल पारित कर दिया था और अब तो नियमावली लागू हुई है। श्री शाह ने स्पष्टता से कहा कि भाजपा के लिए ये राजनीतिक लाभ का मुद्दा नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और भाजपा के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए करोड़ों शरणार्थियों को उनके अधिकार देना, उनकी वेदना से उन्हें मुक्ति दिलाना और उनकी तीन पीढ़ियों को न्याय देने का मुद्दा है, जो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने विपक्ष द्वारा भाजपा पर इस मुद्दे के राजनीतिकरण और वोटों के ध्वीकरण के आरोपों पर कहा कि विपक्ष ने तो सर्जिकल, एयर स्ट्राइक और धारा 370 हटाने को राजनीतिक कदम बताया लेकिन



इसका अर्थ ये तो नहीं है भाजपा आतंकवाद के विरुद्ध कदम न उठाए। विपक्ष का इतिहास है कि ये दल सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और भाजपा ने जो कहा वो किया है। मोदी की गारंटी, गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। श्री शाह ने इस बिल के बारे में फैल रही

ध्रामक जानकारी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 4 वर्षों में 41 बार अलग अलग मंचों से स्पष्ट रूप से कहा है कि इस देश के अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता का हनन करने का प्रावधान नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन शरणार्थियों को नागरिकता और उनके अधिकार देने का कानून है। जिससे इनके जीवन की वेदनाएं कम हो पाएँ।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने इस नियम को एंटी-मुस्लिम कहे जाने की विवंगति के बारे में कहा कि सीएए को एंटी मुस्लिम कहना पूरी तरह से गलत है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ और देश तीन हिस्सों में बंट गया, भारतीय जनसंघ (अब भाजपा) शुक से ही धर्म आधारित विभाजन के विरोध में था। जब धर्म के आधार पर विभाजन किया गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होने लगे, उन पर धर्मपरिवर्तन का दबाव बनाया गया और जब अपनी जान और सम्मान बचाने के लिए वे भारत के शरण में आए तो क्या उन्हें यहाँ नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। आजादी के वक्त स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने अपने सैकड़ों भाषणों में कहा था कि हिंसा के कारण जो लोग जहाँ हैं वहीं रुक जाएँ। बाद में जब भी ये लोग भारत आये तो उन्हें स्वीकारा जाएगा। परन्तु उसके बाद वोटबैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस ने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया।

# कांकेर के चिलपरस में पुलिस-नक्सली मुठभेड़

**■ जंगल की आड़ लेकर भागे माओवादी**

कांकेर। कोयलीबेड़ा क्षेत्र के चिलपरस के जंगलों में एंटी नक्सल ऑपरेशन में निकले जवानों और नक्सली के बीच मुठभेड़ हो गई। जवानों की टीम पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला बोल दिया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। कांकेर एसपी आई के एलेसेला ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। इलाके में सच ऑपरेशन जारी है। पुलिस पार्टी पूरी तरह सुरक्षित है।



कैम्प खुलने से नक्सली लगातार बैकफुट में हैं। लगातार नक्सली घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजापुर में 12 मार्च को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर के दौरान क्रॉस फायरिंग में बोड़गा गांव की रहने वाली एक महिला को गोली लग गई। इस गोलीबारी में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। भैरमगढ़ अस्पताल में इलाज के बाद महिला को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की सर्चिंग के दौरान जवानों को भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सल साहित्य मिला है।

**1 नक्सली डीकेएमएस सदस्य ने किया आत्मसमर्पण**

दंतेवाड़ा। जिले में चलाये जा रहे

नक्सल उन्मूलन अभियान लोन वरदौट (घर वापस आइये अभियान) के तहत भैरमगढ़ एरिया कमेटी के प्रतिबंधित नक्सली संगठन में फुलगुड़ा पंचायत डीकेएमएस सदस्य रामा ओयाम पिता स्व. बुधराम ओयाम निवासी पेंदापाल गाथापारा थाना मिरतुर जिला बीजापुर ने डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने में आरएफटी दंतेवाड़ा का विधेय योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा द्वारा आत्मसमर्पित नक्सली को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ प्रदाय कराया जायेगा। विदित हो कि लोन वरदौट अभियान के तहत अब तक 173 ईनामी नक्सली सहित कुल 679 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं।

**आगजनी की वरदात में शामिल स्थायी वारंटी 2 नक्सली गिरफ्तार**

सुकमा। जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, इसी तारतम्य में नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर जिला बल एवं डीआरजी की संयुक्त

पार्टी एरिया डेमिनेशन हेतु ग्राम सुन्नमगुड़ा व आस-पास क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे। अभियान के दौरान सुन्नमगुड़ा के पास से घेराबंदी कर 2 नक्सलियों मड़कम गंगा पिता मड़कम बुधरा निवासी बेलपोच्चा थाना कौंटा बेलपोच्चा मिलिशिया सदस्य एवं मुचाकी बुधरा पिता मुचाकी देवा निवासी बेलपोच्चा थाना कौंटा ग्राम बेलपोच्चा सीएनएम सदस्य को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनो नक्सलियों को थाना लाकर नक्सल रिकार्ड की जांच करने पर थाना कौंटा क्षेत्रान्तर्गत 3 नवंबर 2023 को ग्राम बेलपोच्चा के पास सवारी शाहों पर आगजनी की वरदात में शामिल था। घटना के संबंध में थाना कौंटा में अपराध क्रमांक 36/2023 धारा 147, 148, 149, 294, 323, 506, 341, 435 भादवि, 25, 27 आर्स एक्ट के तहत प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध है। इसके अतिरिक्त मुचाकी बुधरा के गिरफ्तारी हेतु न्यायालय सुकमा के द्वारा थाना कौंटा के अपराध क्रमांक 13/2019 धारा 147, 148, 149, 294, 323, 506 (बी), 334, 364, 395 भादवि, 25, 27 आर्स एक्ट के प्रकरण में स्थायी वारंटी जारी किया गया है।

# धरने पर श्रम सेवा भूमि स्थापित कामगार संगठन जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी

कोरबा। कोरबा में बढ़ते प्रदूषण और अन्य मांगों को लेकर श्रम सेवा भूमि स्थापित कामगार संगठन कोरबा द्वारा भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है, सर्वमंगला चौक पर शुरू हुए इस आंदोलन में कई गांव के लोग हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित शहर कोरबा का जनमानस अब बढ़ते प्रदूषण से आजिज आ गया है, सर्वमंगला मंदिर के आसपास कई गांव में निवासरत लोगों ने श्रम सेवा भूमि स्थापित कामगार संगठन के बैनर तले पूर्व घोषित भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया है। संगठन से जुड़े लोगों ने बताया कि कोरबा की कुलदेवी सर्वमंगला के मंदिर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है बढ़ते प्रदूषण के कारण मंदिर और आसपास का इलाका भूल धूसरित हो रहा है। आंदोलनकारी ने बताया कि विकास तो हो लेकिन हमको विनाश से बचाया जाए इसलिए यह आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने हिस्सा लिया। संगठन की पदाधिकारी विजय महंत ने बताया कि कई बार आंदोलन और शिकायत करने के



बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसके चलते भूल के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं दमा चर्म रोग जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। वहीं ग्रामीण गोपाल कुमार ने बताया कि ऐसे कई गांव हैं इस क्षेत्र में जो भारी वाहनों की आवाजाही के चलते परेशान हैं ग्रामीणों को हादसे में मौत भी हो रही है वहीं भूल से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसे लेकर जिला प्रशासन को पहले भी अवगत कराया जा चुका है लेकिन उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

# बस्तर में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका महिला पार्षदों ने दिया इस्तीफा बदतमीजी का लगाया आरोप

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव के पहले बस्तर की कांग्रेस कमेटी में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का पार्टी से इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। दो महिला कांग्रेस पार्षदों ने पार्टी को अलविदा कहा है। महाराणा प्रताप वार्ड की पार्षद नेहा ध्रुव और सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड की पार्षद श्वेता बघेल शामिल हैं।



महिला पार्षदों ने बदतमीजी का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को कांग्रेस भवन में इस्तीफा सौंपा है। महाराणा प्रताप वार्ड की महिला पार्षद नेहा ध्रुव ने कांग्रेस कमेटी के शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य पर उन्हें बेइज्जत करने का आरोप लगाया। नेहा ध्रुव ने बताया कि लगातार टिकट नहीं देने व बी फार्म में साइन नहीं करने की धमकी उन्हें शहर जिला अध्यक्ष दे रहे हैं। पार्षद नेहा ध्रुव ने कहा 11 मार्च को निगम के अध्यक्ष के खिलाफ होने वाले अविश्वास प्रस्ताव का चुनाव था। 11 बजे पहुंचना था। हम उससे 5 मिनट पहले ही पहुंच गए लेकिन उसके लिए कई बातें सुनाई गईं। उससे पहले रास्ते में आने के दौरान शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने 2 युवकों से हमारा पीछा कराया।

इधर कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने महिला पार्षदों को आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने महिला पार्षदों पर लंबे समय से पार्टी के विरोध में काम करने का आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि समझाइश के बावजूद वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। यह कांग्रेस पार्टी के परिवार की बात है। उनसे बातचीत की जाएगी। कांग्रेस में जारी है इस्तीफों का दौर- इससे कुछ ही दिन पहले कांग्रेस की महिला शहर जिला अध्यक्ष कमल झञ्ज ने अपना इस्तीफा दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। लगातार महिला कांग्रेस के इस्तीफे से कांग्रेस को बस्तर में झटका मिल रहा है।

# विस्फोटक व ग्रामीणों से उगाही की नगद राशि के साथ नक्सली गिरफ्तार

सुकमा। गोण्डा पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी एवं सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी नक्सल उन्मूलन अभियान हेतु ग्राम मूलेर, ईडीगुडेम, गोण्डा, उसकावाया, मिर्सीपारा व आस-पास क्षेत्र की रवाना हुए थे। अभियान के दौरान उसकापारा के पास से एक नक्सली गोण्डा पंचायत डीकेएमएस सदस्य मुचाकी मुक्का पिता मुचाकी पोचा निवासी ग्राम गोण्डा, उसकापारा थाना केरलापाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक काले झिल्ली मे 10 नग विस्फोटक (जिलेटिन रॉड) एक काले रंग की झिल्ली मे कोर्डेक्स वायर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर 2 नग, इलेक्ट्रिक स्वीच 2 नग एवं नगद राशि 16 हजार रूपये तथा 20 नग नक्सली पर्चा बरामद किया गया है।

गिरफ्तार नक्सली मुचाकी मुक्का के खिलाफ थाना केरलापाल में अपराध क्रमांक 05/2024 धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 38 (1), 39 (2) 17 विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही उपरान्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।

उक्त सामग्रियों के संबंध में पूछताछ करने पर वे नक्सली संगठन में गोण्डा पंचायत डीकेएमएस सदस्य के रूप में कार्य करना तथा नक्सल संगठन को मजबूत करने के लिये गोण्डा व आस-पास के गांवों से प्रत्येक घरों से 100 और 50 रूपये की उगाही कर नक्सलियों तक पहुंचाना बताया गया। विस्फोटक सामग्री का रखे जाने के संबंध में पूछने पर बड़े नक्सली कमाण्डरों के कहने पर सुरक्षा बलों के आने-जाने वाले मार्ग में सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने की नीयत से प्लांट करने की उद्देश्य से रखना बताया।



# शिक्षक ने ठगे 11 लाख रुपये, नौकरी दिलाने के नाम पर वसूली रकम

**दिया फर्जी नियुक्ति पत्र, मुकदमा दर्ज**

जगदलपुर। जगदलपुर शहर के पोड़गुड़ा में रहने वाले शिक्षक ने 17 लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाते हुए उन्हें जाँब दिलाने के बात कही, जिसके बाद लोग उसकी बातों के जाल में आकर अपनी जमा पूंजी शिक्षक के हवाले कर दिया। इसके अलावा शिक्षक के द्वारा सभी को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिया, लेकिन जब इस बात की जानकारी प्राथियों को लगी तो पुलिस में मामला दर्ज कराया गया जहां शिक्षक के खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया गया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए मांवलोगुड़ा में रहने वाले बिजली मिस्त्री पदमन कश्यप ने बताया कि सुखराम सुर्यवंशी निवासी पोड़गुड़ा के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर 11 लाख 60 हजार रूपये की ठगी किया है, प्रार्थी ने बताया कि मेरे साथ ही छोटी बहन अनिता कश्यप जो दोनो 12 वीं पास होने के साथ ही बेराजगार भी हैं। दोनों शासकीय नौकरी की तलाश कर रहे थे, उसी दौरान अगस्त माह में दोस्त रायसिंग मौर्य ने शिक्षक सुखराम सुर्यवंशी पिता फरसू सुर्यवंशी से मिलवाया जिसने बताया कि जगदलपुर कलेक्टर ऑफिस में मेरा



परिचय उपर तक है। लोगों की नौकरी जिला सत्र न्यायालय जगदलपुर में भुक्त एवं सहायक ग्रेड 3 के पद पर लगवाने की बात कहते हुए भुक्त पद के लिये डेढ़ लाख रूपये एवं सहायक ग्रेड 3 के लिये 2 लाख रूपये लगने की बात कही, नौकरी नहीं लगने पर तुरंत पैसा वापस देने की बात कहते हुए लोगों को झांसे में ले लिया, पदमन ने 18 अगस्त 2023 को नगद भुगतान 40,000 रूपये दिया, उसके बाद 30 30 हजार और दिया गया, इसके अलावा अन्य राशि नगद एवं ऑनलाइन किया गया, पदमन के साथ छोटी बहन अनिता कश्यप जो दोनो गांव के लोगों से भी सुखराम सुर्यवंशी ने जिला सत्र न्यायालय जगदलपुर में नौकरी लगाने के नाम से झांसा देकर ठगी करते हुए पैसा लिया है। मामले को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 420 का मामला भी दर्ज किया है।

# छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

## सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी 31 महिलाएं हुई सम्मानित

बलौदाबाजार। नया सवेरा जनकल्याण समिति ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। झेरिया साहू समाज भवन, बलौदाबाजार में आयोजित समारोह में विभिन्न सामाजिक समितियों से जुड़ी 31 महिलाओं को मुख्य अतिथि सिविल जज मयूर गुप्ता और डीएसपी निधि नाग ने मोमेंटो, सम्मान पत्र और श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। जज मयूर गुप्ता ने लड़कियों के शिक्षा पर जोर देने और बिना रग भेद के उच्च शिक्षा के प्रति आग्रह करते हुए कहा कि सम्मानित हो रही महिलाओं के सामाजिक योगदान को सारंगित करती है, जैसे गुलामी गेग की प्रतिनिधि मोहतरा प्रसादी, जो अपने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की संदेश दे रही हैं। अध्येक्ष श्रीमती लता साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी सोच, दृढ़ संकल्प और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। समारोह के अंत में नया सवेरा जनकल्याण समिति की प्रांतीय अध्येक्ष श्रीमती लता अजय साहू ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

## बाइक सवारों को समझाना पुलिसकर्मियों को पड़ा भारी

जगदलपुर। जगदलपुर के नगरनार थाना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर और प्रधान आरक्षक को बाइक सवार युवकों को सही से बाइक चलाने के लिए समझाना महंगा पड़ गया। तीन युवकों ने एसआई व प्रधान आरक्षक का रास्ता रोककर पहले तो गाली गलौज की। उसके बाद अपने पास रखे चाकू को दिखाने के साथ ही हेल्मेट से पिटाई कर फरार हो गए। इस घटना में दोनों पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की रिपोर्ट नगरनार थाना में दर्ज कराया गया है। जहां आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि ये युवक जब तेजी से बाइक चलाते हुए पुलिसकर्मियों की साइड से निकले तो सब इंस्पेक्टर रवेश सेठिया इन युवकों को रोककर नाम पता पूछताछ कर फिर से इस तरह से वाहन न चलाने की बात कहते हुए समझाने लगे, जिसपर युवकों ने पुलिसकर्मियों के साथ बहसबाजी की और वहां से चले गए। जिसके बाद बाद युवकों ने दोनो पुलिसकर्मियों को बीच रास्ते में रोक लिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट की।

## भिलाई स्टील प्लांट में लगी भीषण आग

भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर भीषण आगजनी की घटना हुई है। देर रात साढ़े 10 बजे कोक ओवन सीसीडी के अमोनिया स्ट्रिपिंग टावर में आग लग गई। करोड़ों के नुकसान की बात कही जा रही है। कोक ओवन के कार्मिकों के अनुसार बुधवार रात करीब 11 बजे उन्होंने सीसीडी के अमोनिया स्ट्रिपिंग टावर में आग की लपटें देखी। देखते ही देखते आग फैलती गई। फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। रात करीब 1 बजे आग पर कब्जा पाया गया। इस दौरान सीआईएसएफ ने एरिया की घेराबंदी कर दी। बीएसपी में हुए हादसे की जांच के लिए प्रबंधन की ओर से एक टीम गठित करने की बात सामने आ रही है। जो आग लगने के कारणों की जांच करेगी। जांच के बाद आग लगने के कारणों की खुलासा हो सकेगा। कोक ओवन की बेंटी-11 से जो गैस निकलती है, उसे फिल्टर कर अमोनिया को अलग किया जाता है। ब्लाई प्रोडक्ट को अलग करने की प्रक्रिया की जाती है।

## वीरांगना प्रमिला देवी नाग की प्रतिमा का किया गया अनावरण

कोंडागांव। बड़े कनेरा मार्ग पर स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में बस्तर की वीरांगना प्रमिला देवी नाग के प्रतिमा का अनावरण भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व कोंडागांव विधायक लता उमंडे की द्वारा किया गया। वीरांगना प्रमिला देवी नाग के नाम से कोंडागांव के शासकीय कन्या महाविद्यालय का नामकरण किया गया है। इस दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष जसकेतु उमंडे, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपेश अरोरा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अनिता नेताम पूर्व अध्यक्ष किरण उमंडे, पार्षद सतीशा सोनी, सोनामणि पोयाम, अंकुश जैन, देवनारायण सिंह नेताम सहायक प्राध्यापक (गणित), निधि जैन सहायक प्राध्यापक (हिंदी), सरिता तारम सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान), अनिका अंचल सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), महेंदर सिंह सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र), शारदा मरकाम सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र), योगेश समर्थ सहायक ग्रेड तीन के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे।

## ओडिशा से गांजा खरीदकर हरियाणा में खपाने की तैयारी

बिलासपुर। कोटा थाना क्षेत्र के बेलगहना चौकी पुलिस ने हरियाणा के युवक को गांजा तस्करी करते पकड़ा है। आरोपी तस्कर के पास से 50 किलो गांजा, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है, सहित कार, मोबाइल और अन्य सामान जब्त किया है। जिसकी कुल कीमत 15 लाख रुपये बताई जा रही है। आरोपी तस्कर ओडिशा का गांजा हरियाणा में खपाने की तैयारी में था। जानकारी के अनुसार, बुधवार की देर शाम पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बेलगहना चौकी पुलिस की टीम गश्त में निकली हुई थी। इसी दौरान मुखबरी से सूचना मिली की सफेद रंग की कार के डिकी में एक युवक अवैध रूप से गांजा लेकर पेंडू की तरफ जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने केंदा के ढाबा के पास घेराबंदी कर कार को रोका और कार चालक ने अपना नाम मनीष कुमार (30 साल) हरियाणा जिला जॉद का निवासी बताया। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को दो बोरियों में 50 किलो गांजा मिला, जिसे जब्त किया गया है।

# आदिवासी विरोधी है भाजपा सरकार: विधायक मंडावी

बीजापुर। बीजापुर में गुरवार को जिला मुख्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि साल के शुरुआत में गंगालूर थाना अंतर्गत मुठवेंडी गांव में क्रॉस फायरिंग के नाम पर छह माह की आदिवासी बच्चों की मौत होना, उसके बाद आवापल्ली थाना अंतर्गत चैरामंगी गांव के आश्रम में अध्वरत आदिवासी छात्र का आश्रम में ही फाँसी लगाकर आत्महत्या करना, उसके बाद आवापल्ली थाना अंतर्गत चिंताकोटा गांव में संचालित कन्या पोटाकेबिन आश्रम स्कूल जहां 300 से अधिक आदिवासी छात्राएँ रह रही थी, उस छात्रावास में मध्यरात्रि को पूरे आश्रम परिसर में आग लगना और उस आग में जलने से चार साल की मासूम बच्ची की मौत होने के साथ ही आश्रम में रखे लाखों रुपये के सरकारी



संपत्ति का नुकसान होना और गंगालूर के पोटाकेबिन आश्रम में अध्ययनरत एक आदिवासी छात्र के गर्भवती होने की घटना वर्तमान भाजपा सरकार के तथाकथित नारा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की वास्तविकता को दर्शाता है। विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेस वार्ता में कहा कि महिलाओं और बेटियों के साथ छेड़-छाड़, बलात्कार, अपहरण की घटनाएँ बढ़ी हैं। भाजपा सरकार में अब बेटियाँ स्कूल जाने से डर रही हैं। वहीं बोड़गा में क्रॉस फायरिंग में एक आदिवासी महिला

को गोली लगी जिसका इलाज जगदलपुर हॉस्पिटल में किया जा रहा है। बीजापुर जिले में लगातार फर्जी मुठभेड़ की घटनाएँ बढ़ रही हैं। निर्दोष आदिवासियों को जेल भेजा जा रहा है। कांग्रेस विधायक ने आगे कहा कि ताड़पोट में भी क्रॉस फायरिंग से डीआरजी के जवान का भाई रमेश ओयाम की मौत हुई थी। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं। स्कूलों में आदिवासी छात्राएँ सुरक्षित नहीं हैं महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार आदिवासियों, महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह फेल हो गई है। भाजपा सरकार हमेशा से ही आदिवासी विरोधी रही है

भाजपा और भाजपा के नेता यह नहीं चाहते कि बीजापुर जैसे आदिवासी क्षेत्र के बच्चे स्कूल जायें और आगे बढ़े इसलिए इस तरह के डराने घटनाएँ करवाकर आदिवासी बच्चों को पढ़ने से रोकने का काम भाजपा की विष्णुदेव सरकार कर रही है। विधायक विक्रम मंडावी ने आगे कहा कि पूर्ववर्ती 15 साल की भाजपा सरकार के दौरान नक्सली क्षेत्रों में हुए महिला विरोधी अत्याचार एक बार फिर लोगों के स्मृति में आने लगा है। विष्णुदेव साय की सरकार में अपराधियों और आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित को ही प्रताड़ित करने का सिलसिला भाजपा की सरकार में चल रहा है। पूर्व की रमन सरकार के दौरान भी महिला अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ देश में टॉप फाइव राज्यों में था। एक बार फिर वही स्थिति निर्मित हो गई है। साय सरकार में महिलाएँ डरी हुई हैं।

# विधायक के सवालों का जवाब नहीं दे सके बच्चे बलरामपुर डीईओ ने 7 लोगों को भेजा नोटिस

बलरामपुर। कुछ दिनों पहले बलरामपुर जिले की सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकार स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंची। इस दौरान विधायक ने कई क्लास का दौरा किया। 5वीं के बच्चों से विधायक ने कुछ सवाल किए लेकिन बच्चों के जवाब से वह हैरान रह गईं। विधायक पैकार ने बच्चों से मुख्यमंत्री का नाम, देश का नाम, राज्य के बारे में जनरल नॉलेज के सवाल पूछे लेकिन क्लास का एक भी बच्चा जवाब नहीं दे पाया। जिससे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विधायक उद्देश्वरी पैकार ने नाराजगी जताई। इस बात की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से की गई। विधायक की नाराजगी को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले में सज्ञान लिया और राजपुर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के 6 टीचर्स और प्राचार्य को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में स्कूल के शिक्षकों से बच्चों के मामूली



प्रश्नों पर भी उत्तर नहीं दे पाने को लेकर जवाब मांगा गया। स्वामी आत्मानंद विद्यालय राजपुर के प्राचार्य विजय तिकरि, सिंवादा शिक्षक पाठक जयंत राणा, सिंवादा सहायक शिक्षक अंकित कुमार तिकरि, अलोक कुमार गुप्ता, खुशबू जायसवाल, ममता रुवि कुजूर, पूजा तिकरि को पढ़ाने में कोई रुचि नहीं रखने, विभाग की छवि धूमिल करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

## संक्षिप्त समाचार

**हाईकोर्ट में हुआ उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों की नवीन पदस्थापना**

**बिलासपुर।** छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को नई पदस्थापना दी है। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के अनुसार रजिस्ट्रार, जांच एवं निरीक्षण बलराम प्रसाद वर्मा को रजिस्ट्रार सतर्कता नियुक्त किया गया है। दुर्ग परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी को छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया है। राजनांदगांव के जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार को हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार, जांच एवं निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। दुर्ग के चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा हाईकोर्ट में अतिरिक्त रजिस्ट्रार डीई और इन्स्पेक्शन नियुक्त किए गए हैं। कटघोरा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेंसेलास टोपो को हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (कम्प्यूटर) नियुक्त किया गया है। वे ई कोर्ट परियोजना के भी समन्वयक होंगे। मनेंद्रगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश दीक्षित छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी में अतिरिक्त निदेशक बनाए गए हैं।

**प्रतीग तोगडिया आज महासमुंद में करेंगे सभा को संबोधित**

**महासमुंद।** विश्व हिन्दू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतीग तोगडिया शुक्रवार सुबह राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं और वहां से शाम को महासमुंद पहुंचेंगे जहां शंकराचार्य संस्कृतिक भवन में सर्व हिंदू समाज द्वारा आयोजित सभा में सनातन संस्कृति एवं हिंदुत्व इसके लिए स्थानीय सभी समाज प्रमुखों, विद्यार्थी परिषद, अधिवक्ता परिषद, पूर्व सेनिकों मातृशक्ति एवं किसानों के मध्य हिंदुत्व की ऊर्जा का संचार करेंगे। 16 को रायपुर होते दुर्ग कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां भी आयोजित सभा को संबोधित करेंगे।

**सरकारी कर्मचारियों की समस्या और मांगों की समीक्षा के लिए समिति गठित**

**रायपुर।** राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया शुरू करने और रास्ता निकालने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में 5 सदस्यों को रखा गया है। आईएएस निहारिका बारिक की अध्यक्षता में गठित इस समिति में प्रमुख सचिव, सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), सचिव (वित्त विभाग), सचिव (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा) को सदस्य बनाया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

**साधराम हत्याकांड: डिटी सीएम ने मृतक के परिजनों को दिया 20 लाख का चेक**

**कवर्धा।** जिले के बहुचर्चित साधराम यादव हत्याकांड की एनआईए जांच का ऐलान करने के कुछ दिनों बाद आज डिटी सीएम विजय शर्मा ने मृतक साधराम के परिजनों को बीस लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान डिटी सीएम ने कहा कि पहले मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपए का चेक सहयोग के रूप में दिया गया था, जिसे परिजनों ने लौटा दिया था। आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीस लाख का चेक भेजा है, जिसे मैंने परिजनों को सौंपा। डिटी सीएम शर्मा ने कहा, इसके पहले सरकार ने जांच की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए एनआईए को जांच करने सौंपा है। साधराम के परिवार के साथ हम हर हाल में खड़े रहेंगे। बता दें कि डिटी सीएम विजय शर्मा आज कवर्धा पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर कार्यालय परिसर में दिव्यांगों को पेट्रोल चलित एसीटीवा के निधायक मद की राशि से वितरण किया। साथ ही साधराम के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें चेक भी सौंपा।

**हत्याकांड की एनआईए जांच का ऐलान करने के कुछ दिनों बाद आज डिटी सीएम विजय शर्मा ने मृतक साधराम के परिजनों को बीस लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान डिटी सीएम ने कहा कि पहले मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपए का चेक सहयोग के रूप में दिया गया था, जिसे परिजनों ने लौटा दिया था। आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीस लाख का चेक भेजा है, जिसे मैंने परिजनों को सौंपा। डिटी सीएम शर्मा ने कहा, इसके पहले सरकार ने जांच की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए एनआईए को जांच करने सौंपा है। साधराम के परिवार के साथ हम हर हाल में खड़े रहेंगे। बता दें कि डिटी सीएम विजय शर्मा आज कवर्धा पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर कार्यालय परिसर में दिव्यांगों को पेट्रोल चलित एसीटीवा के निधायक मद की राशि से वितरण किया। साथ ही साधराम के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें चेक भी सौंपा।**

## कांग्रेस की बैठक में पार्षदों सहित अन्य कार्यकर्ता आपस में भिड़े

**विस चुनाव में भीतरघात करने वालों के निष्कासन की मांग को लेकर हुआ विवाद**

**दुर्ग।** दुर्ग लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बुलाई गई कांग्रेस की बैठक में दुर्ग निगम के कांग्रेसी पार्षदों सहित अन्य कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। विधानसभा चुनाव के दौरान दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ भीतरघात करने वालों पर कार्यवाही की मांग को लेकर विवाद शुरू हुआ। बैठक में मौजूद कुछ पार्षद और कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। हंगामा करीब घंटेभर तक चला इस दौरान मारपीट जैसी स्थिति भी निर्मित हो रही थी। वरिष्ठजनों ने समझाइश देकर विवाद का पटाक्षेप कराया उसके बाद बैठक शुरू हुई।

**दुर्ग स्थित राजीव भवन में बुधवार को दुर्ग लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू, पूर्व विधायक अरुण बोरा, प्रतिमा चंद्राकर, आरएन वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गया पटेल सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान पूर्व पार्षद प्रकाश गीते ने पार्षद मदन जैन और**

## भूपेश के आरोप पर सांसद पांडेय का पलटवार

**सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे पर कर रहे हैं सियासी प्रहार**

**खैरागढ़।** लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों के बीच घमासान शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में सबसे रोचक मुकाबला राजनांदगांव लोकसभा सीट पर हो रहा है, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद संतोष पांडेय सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे पर सियासी प्रहार कर रहे हैं।

राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'जीतेंगे राजनांदगांव' का हैस टैग चलाते हुए ट्वीट कर सांसद संतोष पांडेय पर चुटकी ली। बघेल ने लिखा, कहावत है कि 'संतोष' का फल मीठा होता है, लेकिन राजनांदगांव की जनता कह रही है कि 'संतोष' का कुछ फल ही नहीं मिला। 'संतोष' के खिलाफ भारी असंतोष है यहाँ तो।

पूर्व मुख्यमंत्री के इस ट्वीट पर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने पलटवार किया है। उन्होंने 'मोदी की गारंटी' हैस टैग के साथ पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट को री ट्वीट करते हुए लिखा कि फल तो जनता ह चखा दिस कका



आप मन ला। मोदी जी के मार्गदर्शन में राजनांदगांव लोकसभा ने जितनी उपलब्धि हासिल की है, उसे जानता जानती है। आपके शासन के केवल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा गया, विकास कार्यों में रुकावट पैदा की, हिंसा-अपराध को बढ़ावा दिया, ये है आपकी उपलब्धि।

कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के बीच इस बार-पलटवार का सोशल मीडिया के अन्य यूजर बड़े मजे ले रहे हैं, और बीच-बीच में अपने कमेंट कर इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह का सियासी घमासान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा।

**राजनांदगांव से राजधानी पहुंची भाजपा का कार्टून वार**

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं भाजपा ने कार्टून वार का मुहिम कांग्रेस



के खिलाफ छेड़ा है। बीजेपी सोशल मीडिया एक्स पर लगातार एक के बाद एक कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों को टारगेट कर कार्टून पोस्ट कर रही है। भाजपा ने आज फिर से सोशल पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय को टारगेट किया है। बीजेपी ने कैप्शन लिखा है, 'रायपुर वासी सावधान! इस 'विकास' के साथ विनाश आता है'। बता दें कि बीते दिन भाजपा ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर कर कोरबा वासियों से अपील किया था कि इस बार निष्क्रिय नहीं दिखें सक्रिय सांसद चुनें।

बीजेपी ने पहला पोस्टर राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर जारी किया। इस पोस्ट में भूपेश बघेल को जेहादी गिरोह का झंडा थामे दिखाया और उनके पीछे खड़े लोगों को हाथ में तलवार लेकर खड़े होते हुए दिखाया

गया। इसके साथ ही भूपेश को भाईजान अगला नंबर राजनांदगांव का है कहते हुए दिखाया गया है। इस पोस्ट के कैप्शन में बीजेपी ने राजनांदगांव या जिहादगांव। चुनाव आपका है। लिखा है।

दूसरा पोस्टर जांजगीर लोकसभा प्रत्याशी डॉ. शिवकुमार डहरिया को लेकर जारी किया। जिसमें बीजेपी ने लिखा है अवैध कब्जा सरगना। साथ ही उस पोस्टर में लिखा है, सुना है जांजगीर-चांपा में बहुत जमीन है। चलो कब्जा करते हैं। वहीं कैप्शन में भाजपा ने जांजगीर-चांपा की जनता से अपील करते हुए कहा है कि सावधान रहें, पूर्व कब्जाबाज मंत्री की नजर अब आपकी जमीन पर है।

तीसरा पोस्टर कोरबा लोकसभा प्रत्याशी ज्योतसना महंत को लेकर जारी किया। इस पोस्ट में बीजेपी ने कोरबा वासियों से अपील किया है कि इस बार निष्क्रिय नहीं सक्रिय सांसद चुनें। वहीं आज बीजेपी ने चौथा पोस्टर जारी कर रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय को लेकर जारी किया है।

## एनएचएम संविदा कर्मियों को स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने दिया आश्वासन

**27 फीसदी वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ**

**रायपुर।** स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एनएचएम के संविदा कर्मियों को आश्वासन दिया है। उन्होंने 'मोदी की गारंटी' हैस टैग के साथ पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट को री ट्वीट करते हुए लिखा कि फल तो जनता ह चखा दिस कका

इसका लाभ दिलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के महिला पदाधिकारियों के ज्ञापन पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रबंध संचालक जगदीश सोनकर को निर्देशित किया। इस अवसर पर कर्मचारी संघ की महिला पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि तमिलनाडु और मणिपुर में एनएचएम संविदा कर्मियों का नियमितकरण किया गया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने एनएचएम एमडी को अन्य राज्यों में हुए नियमितकरण का अध्ययन कर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।



इसका लाभ दिलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के महिला पदाधिकारियों के ज्ञापन पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रबंध संचालक जगदीश सोनकर को निर्देशित किया। इस अवसर पर कर्मचारी संघ की महिला पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि तमिलनाडु और मणिपुर में एनएचएम संविदा कर्मियों का नियमितकरण किया गया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने एनएचएम एमडी को अन्य राज्यों में हुए नियमितकरण का अध्ययन कर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

## बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियां बचाने में नाकाम : कांग्रेस

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 8 छात्राओं से छेड़छाड़ केस में साय सरकार पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। छात्रों से अभद्रता कि शिकायत की जांच के लिए कांग्रेस ने एक जांच टीम गठित की। जिसने पीड़ित छात्राओं से बात करने के बाद प्रशासन पर धीमी गति से जांच करने, यौन शोषण का आरोप लगने और केस दर्ज होने के बाद भी मंगलवार तक शिक्षकों को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस की जांच समिति की संयोजक विधायक संगीता सिन्हा ने कहा, हमारी टीम ने बच्चियों और उनके परिजनों से चर्चा की। बच्चियों के साथ दो शिक्षकों और हेड मास्टर अश्लील हरकत कर रहे थे। कलेक्टर द्वारा बनाई गई जांच टीम अब तक वहां नहीं पहुंची। न ही अब तक किसी भी शिक्षक पर कार्रवाई की गई। आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली सरकार बेटियों को बचाने में नाकाम रही



हे। कांग्रेस पार्टी ने की तीनों आरोपियों को बर्खास्त करने की मांग की है। संगीता सिन्हा ने आगे कहा, इस पूरे मामले में एसपी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। यह एक सत्तरी का विधानसभा क्षेत्र है, इस कारण मंत्री का आरोपियों को संरक्षण प्राप्त है। मंत्री को भी चाहिए कि मामले पर संज्ञान लें, उनके क्षेत्र का मामला है। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने कहा

सिर्फ एफआईआर दर्ज किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन शिक्षकों की गिरफ्तारी नहीं की गई। यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती तो हम राज्यपाल के पास जाएंगे। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम कोर्ट में याचिका पेश करेंगे।

आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के बड़ा विवाद नारायणपुर जिले के एक स्कूल में 8 छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस केस में सरकारी स्कूल की छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाले तीन शिक्षकों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज किया है। लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किए जाने से विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने केस की जांच के लिए बालोद विधायक संगीता सिन्हा के नेतृत्व में 8 सदस्य जांच दल गठित किया। यह जांच दल मंगलवार को नारायणपुर पहुंचा और पीड़ित छात्राओं से बात की थी। जिसके बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आ रही है।

## पत्नी की विरोध के चलते नहीं हो पाया देवव्रत की प्रतिमा का अनावरण

**पूर्व सीएम पर लगाया आरोप, कथनी व करनी में फर्क रखते हैं**

**खैरागढ़।** खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पूर्व विधायक राजा देवव्रत सिंह की प्रतिमा अनावरण के पहले विवाद हो गया है। गुरुवार को प्रतिमा का अनावरण पूर्व सीएम व वर्तमान लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल के हाथों होना था। इसके लिए बाकायदा प्रोटोकॉल भी जारी हो गया था। लेकिन ऐन वक्त में पूर्व विधायक देवव्रत की पत्नी विभा ने प्रशासन को पत्र लिखकर अनावरण में रोक लगाने की मांग की और कार्यक्रम स्थगित हो गया। मामले ने तूल पकड़ लिया है।

प्रतिमा अनावरण में स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की धर्मपत्नी रानी विभा सिंह को आमंत्रण नहीं मिलने व उनके द्वारा खैरागढ़ कलेक्टर को पत्र लेकर इस कार्यक्रम पर रोक की मांग को लेकर विवाद गहरा गया है। रानी विभा



सिंह ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर प्रतिमा अनावरण की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया है इधर, नगर पालिका ने कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। विभा सिंह ने कहा कि मैंने खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मीडिया के माध्यम से स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के साथ उनके नाम पर खैरागढ़ विधानसभा के जलाशय 'गार्डन' अथवा योजनाओं का नाम रखने की मांग की थी। अब राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भूपेश बघेल हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री केवल अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए यह लेकर विवाद गहरा गया है। रानी विभा

उनके परिवार के साथ खैरागढ़ विधानसभा की जनता आज भी दिल से जुड़ी है और वह कहीं ना कहीं उनकी कमी महसूस करती है।

इसी भावनाओं को धुनाने के लिए प्रत्याशी घोषित होने के बाद भूपेश बघेल मूर्ति का अनावरण के साथ गार्डन का भी उद्घाटन करना चाह रहे थे। अभी तक आमंत्रण व सम्मान नहीं मिल पाया है। इसके लिए मैंने खैरागढ़ कलेक्टर चन्द्रकांत वर्मा को लिखित पत्र लिखकर आपत्ति जताते हुए कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है।

पूरे मामले में किरकिरी होते देख इधर नगर पालिका ने आनन-फानन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष को पत्र लिखकर बताया कि राजा देवव्रत सिंह का प्रतिमा स्थापना प्रगतिरत है। ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण होने के बाद हैंडओवर की कार्यवाही की जाएगी। देवव्रत सिंह के परिवार से परामर्श और कलेक्टर के अनुमोदन के बाद ही प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा।

## मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के आरोप पर डिटी सीएम साव का पलटवार

**कहा- कांग्रेस के पास न नीयत, न नेतृत्व**

**रायपुर।** मोदी के चहरे पर चुनाव लड़ने के आरोप पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज वैश्विक नेता हैं। प्रधानमंत्री आम लोगों के नेता हैं, वहीं कांग्रेस के पास आज न नीयत है और न ही नेतृत्व।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि पिछले 10 सालों में आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाया है। देश का विकास किया और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया। समृद्ध, खुशहाल भारत बनाया है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं।

इसके साथ ही अरुण साव ने कांग्रेस की दूसरी सूची को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की हालात ऐसी हैं कि उनका कोई टिकट लेने वाला नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कोई लड़ना नहीं चाहता। जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है। कांग्रेस के 6 प्रत्याशी नकारे गए लोग हैं। जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें नकारेगी।

मोदी की गारंटी पर कांग्रेस के बयानों पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस आज अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। 5 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता तड़पया है। कांग्रेस के मस्तक में वहीं चलता है जो इन्होंने किया। आज 3 महीने में छत्तीसगढ़ में कई ऐतिहासिक निर्णय हुए, जिसकी कल्पना कभी कांग्रेस नहीं कर सकती। पीएम आवास की स्वीकृति, किसानों के खातों में दो साल का

## 'छत्तीसगढ़- विजन 2047' पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की परिकल्पना को सार्थक करने 'छत्तीसगढ़- विजन 2047' पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन 15 मार्च को होटल बेबीलॉन कैपिटल में 11:30 बजे से किया है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्य अतिथि वित्त मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन अभिभावक जैन करेंगे।

आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 'छत्तीसगढ़- विजन 2047' पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के इंटीग्रेटेड स्टील एवं स्पंज आयरन प्लांट, कोल वांशरी, ताप विद्युत संयंत्र, कोल माईंस, आयरन ओर माईंस, बड़े हॉस्पिटल, स्पंज आयरन एसोसिएशन, रोलिंग मिल एसोसिएशन, मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन, माईनर मिनरल एसोसिएशन, संयुक्त अपशिष्ट अपवहन सुविधा के राज्य प्रमुख शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में



नगर पालिक निगम रायपुर, नगर पालिक निगम बिलासपुर, नगर पालिक निगम दुर्ग एवं नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त भी उपस्थित रहेंगे।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के सदस्य सचिव पी। अरुण प्रसाद ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में आजादी के 100वें वर्ष यानि 2047 तक भारत के साथ छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाने आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। 'छत्तीसगढ़- विजन 2047' अगले 25 वर्षों के लिए पर्यावरण संरक्षण पर रोड मैप के रूप में कार्ययोजना तैयार किए जाने पर विचारों और सुझावों को साझा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

कार्यालय कार्यापालन अभियंता		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रायपुर, छत्तीसगढ़		
मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना		
निविदा क्र. 230/नि.शा./का.अ./लो.स्वा.यां./खण्ड		
रायपुर, दिनांक 11.03.2024		
एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:-		
स. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि
1	राज्य स्तरीय प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र (NABL, Accredited) रायपुर हेतु Glasswares का प्रदाय।	8.02
2	राज्य स्तरीय प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र (NABL Accredited) रायपुर हेतु Glassware/Standards का प्रदाय।	19.80
उपरोक्त कार्यों की निविदा को सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञापित, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28.03.2024 सायं 5.30 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।		
कार्यापालन अभियंता		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़		
जी-08514/1		





# मोटापे को छिपाने और लंबी हाइट के लिए इस तरह से पहनें साड़ी, बहुत काम आएंगे ये हैक्स



अनन्या मिश्रा

हर लड़की पर साड़ी काफी अच्छी लगती है। लेकिन अगर साड़ी को सलीके से पहना गया हो। हालांकि ज्यादातर लड़कियां चाहकर भी साड़ी नहीं पहन पाती हैं। ऐसे में आप इन टिप्स को फॉलोकर अपने लुक को परफेक्ट बना सकती हैं।

हर लड़की पर साड़ी काफी अच्छी लगती है। लेकिन अगर साड़ी को सलीके से पहना गया हो। हालांकि ज्यादातर लड़कियां चाहकर भी साड़ी नहीं पहन

पाती हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि साड़ी में उनकी हाइट काफी कम लगती है और मोटा लुक आता है। लड़कियों को ऐसा लगता है कि साड़ी उनपर अच्छी नहीं लगेगी। इस कारण वह साड़ी पहनने में हिचकती हैं। अक्सर लड़कियों की यह शिकायत होती है कि साड़ी में उनकी हाइट कम हो जाती है। तो आज हम आपको साड़ी पहनने के कुछ आसान स्टाइलिंग टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इन आसान टिप्स को फॉलो करने से साड़ी में आपकी हाइट लंबी दिखेगी।

## नाभि के ऊपर से न पहनें साड़ी

साड़ी पहनने के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि आप नाभि से थोड़ा नीचे साड़ी पहनें। नाभि के ऊपर साड़ी पहनने से आपका लुक मोटा दिख सकता है। वहीं कमर के नीचे का हिस्सा सभी का बराबर होता है। साड़ी पहनते समय यह आसान सा ट्रिक आपके लुक

को पतला दिखाने में सहायता करता है।

## वर्टिकल लाइन डिजाइन वाली साड़ी

साड़ी में ज्यादा लंबा दिखने के लिए ऐसी साड़ियां पहनें, जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ लंबी धारी वाली डिजाइन हों। इस तरह की साड़ी में आपकी हाइट ज्यादा लगेगी। चौड़ाई में बनी डिजाइन वाली साड़ी पहनने से बचना चाहिए। क्योंकि इस तरह की साड़ी में हाइट कम लगती है।

## साड़ी का प्रिंट्स

आपकी बांडी शैप के हिसाब से साड़ी के प्रिंट्स होने चाहिए। आप चाहें तो फ्लोरल प्रिंट या फिर छोटे प्रिंट वाली साड़ी पहन सकती हैं। क्योंकि इस तरह की साड़ियों में आपकी लंबाई ज्यादा लगने के साथ ही वजन भी कम लगेगा। यह प्रिंट देखने में भी काफी

स्टाइलिश लगते हैं।

## ब्लाउज डिजाइन


अगर आपकी हाइट कम है और साड़ी में लंबी दिखना चाहती हैं, तो आपको लंबे या फूल स्लीव्स वाले ब्लाउज नहीं पहनने चाहिए। आप साड़ी में लंबी दिखने के लिए बिना स्लीव्स वाले या फिर कोहनी के ऊपर वाले ब्लाउज पहनें। वहीं बाजूओं में अधिक चर्बी या मोटापा होने पर आपको हाफ स्लीव्स या कट स्लीव्स वाले ब्लाउज नहीं पहनने चाहिए।



## जूं से मिलेगा 100% छुटकारा, जावेद ने बताया एकदम नायाब नुस्खा

सिर में जूं और लीख हो जाना कॉमन प्रॉब्लम है। इससे छुटकारा पाने के लिए हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने सिंपल सा घरेलू नुस्खा बताया है।

लोगों में बालों से जुड़ी समस्या होना आम है। इसमें बालों का झड़ना, बालों में डैंड्रफ होना और गंजेपन जैसी हेयर प्रॉब्लम का सामना



ज्यादातर लोगों को करना पड़ता है। इनमें से एक और समस्या है बालों में जूं होना। बालों में जूं पड़ जाना भले ही सामान्य बात है, लेकिन इससे निपटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जूं प्रजनन करते हैं। बच्चे हो या

बड़े जुएं किसी को भी हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंदगी से रहने की वजह से जुएं होते हैं, पर ऐसा नहीं है। जूं अगर सिर से चिपक जाए, तो यह अंडे देता है। इससे कम होने के बजाय इनकी संख्या बढ़ती जाती है और एक इंसान से दूसरे इंसान के सिर में ये तेजी से चले जाते हैं। बालों में जूं और लीख से छुटकारा पाने के लिए लोग महंगे शैंपू और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद बाल पूरी तरह से साफ नहीं हो पाते हैं। अगर आपके साथ भी यह समस्या बनी हुई है, तो हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने इंस्टाग्राम पर जुओं से राहत दिलाने के नुस्खे बताए हैं। इन्हें अपनाकर जुएं जड़ से खत्म हो जाएंगे।

## जवान और शीशे सी स्किन के लिए कोरियन लेते हैं ये 7 सप्लीमेंट, कुछ तो आपकी किचन में हैं मौजूद

कोरियन लोगों की बेहतर हेल्थ और फिटनेस का राज उनकी लाइफस्टाइल में छिपा है। अगर आप भी इनकी तरह यंग और फिट रहने के तरीके तलाश रहे हैं, तो इन 8 सप्लीमेंट के बारे में जरूर जानिए।

कोरियन कल्चर का खुमार इन दिनों लोगों पर खूब चढ़ा हुआ है। खासतौर से बात अगर यंग और हेल्दी रहने की हो, तो ज्यादातर लोग कोरियन पद्धतियों पर ही भरोसा करते हैं। ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि कोरियाई लोग अपनी उम्र से बहुत ज्यादा यंग और फिट दिखते हैं। इसका पूरा श्रेय जाता है उनके वर्कआउट और उनकी डाइट को।

ये लोग पोषक तत्वों से भरपूर मछली, सब्जियां, फर्मेंटेड फूड्स का सेवन ज्यादा करते हैं, वहीं रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी इनकी फिटनेस को बढ़ावा देती है। इसके अलावा कुछ तरह की पारंपरिक चाय और रिलैक्सेशन टेक्निक भी हेल्दी लाइफस्टाइल को मॉटेन करने में मदद करती हैं। अगर आप भी अपने समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो कोरियाई लोगों की तरह कुछ सप्लीमेंट्स का उपयोग शुरू कर दीजिए। अपनी ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कोरियाई लोग


अक्सर इसे अपने रूटीन में शामिल करते हैं। तो आइए जानते हैं इन 8 सप्लीमेंट के बारे में।

**ग्रीन टी का अर्क** ग्रीन टी सदियों से कोरियाई संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पॉलीफेनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग्रीन टी एक्सप्लैन्ड सप्लीमेंट मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने, हृदय स्वास्थ्य को ठीक रहने और वेट मैनेजमेंट में मदद करता है।

**हल्दी** कोरियाई व्यंजनों में हल्दी का यूज बहुत होता है। इस जड़ी बूटी में करक्यूमिन होता है। यह अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। इसके स्वास्थ्य लाभों का जानकर कई कोरियाई लोग अब जोड़ों के स्वास्थ्य और सृजन को कम करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करने लगे हैं।

**विटामिन सी** विटामिन सी इंडियन स्किन के लिए भी बहुत असरदार है। अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में यह अहम भूमिका निभाता है। कोरियाई लोग अक्सर अपने आहार में विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे खट्टे फल, जामुन और हरी सब्जियां शामिल करते हैं। इसके अलावा कई लोग विटामिन सी के सप्लीमेंट्स पर निर्भर हैं। खासकर उब और फलू के मौसम में इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए ये लोग इसका सेवन रोजाना करते हैं।

**कोलेजन** स्किन को यंग बनाए रखने में कोलेजन की



भूमिका अहम है। कोलेजन एक प्रोटीन है, जो त्वचा, बालों और नाखूनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

कई कोरियाई लोग अपनी ब्यूटी डाइट में कोलेजन के सप्लीमेंट लेते हैं।

माना जाता है कि ये सप्लीमेंट त्वचा की लोच और हाइड्रोजन को बढ़ावा देते हैं। इतना ही नहीं यह चेहरे पर आने वाली झुर्रियों को कम करने का अच्छा तरीका है।

**ओमेगा-3 फैटी एसिड** सेल्मन और मैकेरल जैसी फैट से भरपूर मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला

ओमेगा-3 फैटी एसिड हृदय स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। चूंकि हर कोई नियमित रूप से मछली का सेवन नहीं करता, इसलिए कई कोरियाई लोग ओमेगा-3 के सप्लीमेंट लेना पसंद करते हैं।

खासकर अगर वह मछली के तेल या शैवाल से मिले, तो ज्यादा फायदेमंद होता है। यह सप्लीमेंट हृदय के स्वास्थ्य और सृजन को कम करता है, जिससे आप बढ़ती उम्र में जवां और फिट दिखाई देते हैं।

**प्रोबायोटिक्स** हम भारतीय लोग पेट के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए प्रोबायोटिक्स का सेवन करते हैं। यही प्रोबायोटिक्स दक्षिण कोरिया में पॉपुलैरिटी बटोर रहा है। फर्मेंटेड फूड जैसे किमची, दही और अन्य पारंपरिक कोरियाई व्यंजन गुड बैक्टीरिया के सेवन में योगदान करते हैं। हालांकि, कई कोरियाई लोग पाचन स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली को

बढ़ावा देने के लिए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट का भी सेवन करने लगे हैं।

**रेड जिनसेंग** रेड जिनसेंग, एक पॉपुलर पारंपरिक कोरियाई उपचार है। यह अपने एंजाइमेटिक गुणों के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह तनाव को दूर करता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। रेड जिनसेंग का सेवन कोरियाई लोग कैप्सूल, अर्क, चाय और टॉनिक में एक कंपोनेंट के रूप में करते हैं।

**कोरियाई लोगों की आदतों को कैसे अपने जीवन में लागू करें**

- 1- रंगीन सब्जियों, टोफू और मछली जैसे लीन प्रोटीन और किमची जैसे फर्मेंटेड फूड्स के साथ संतुलित भोजन का सेवन करें।
- 2- माइंडफुल ईटिंग के लिए पोर्शन कंट्रोल पर ध्यान दें।
- 3- डेली वॉक या टाइकांडो जैसी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं।
- 4- सोने और जागने का शेड्यूल बनाएं।
- 5- त्वचा की देखभाल पर जोर दें।
- 6- पारंपरिक चाय पीकर हाइड्रेटेड रहें।
- 7- कोरियाई लाइफस्टाइल के लिए ये बातें भी हैं जरूरी
- 1- संतुलित पोषण को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- 2- आहार में विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन को शामिल करना जरूरी है।
- 3- रोजाना फिजिकल एक्टिविटी करें। हर सप्ताह कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज करें।
- 4- अच्छी मात्रा में पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें।
- 5- समग्र स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद लें।
- 6- तनाव दूर करें।
- 7- प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स और शराब का सेवन सीमित करें।
- 8- रेगुलर हेल्थ चेकअप पर ध्यान दें।
- 9- स्वस्थ जीवन के लिए सकारात्मक रिश्ते बनाना भी जरूरी है।



जाएगा। ऐसे में होली पार्टी के लिए सभी लोग पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। अगर आप भी होली की पार्टी में जाने का प्लान कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप पहले से ही अपने लिए कम्फर्टेबल कपड़ों की शॉपिंग कर लें। इसे आप अच्छे से होली पार्टी को एन्जॉय कर पाएंगे।

लूज टी-शर्ट और जींस करें वियर

## होली पार्टी में जबरदस्त दिखने के लिए ये कम्फर्टेबल कपड़े जरूर पहनें

दिव्यांशी भदौरिया

होली त्योहार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। होली पार्टी में स्टाइलिश दिखने के लिए आप भी बया पहनें यह सोच रहे तो बिल्कुल चिंता न करें। इस लेख में हम बताएंगे कि अच्छे से होली एन्जॉय करने के लिए जरूरी है कि आप सही कपड़ों का चयन करें। ऑफिस पार्टी हो या घर पर होली की पार्टी जरूर होती है।

रंगों का त्योहार का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। हर साल होली की सेलिब्रेशन की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। ऑफिस पार्टी हो या घर पर होली की पार्टी जरूर होती है। जहां पर हर कोई तैयार होकर पहुंचता है और होली का जश्न मनाता है। इस साल होली का फेस्टिवल 25 मार्च को मनाया

आप होली में लूज टी-शर्ट और जींस को वियर कर सकती हैं। आप चाहें तो घर में रखी कोई पुरानी टी शर्ट या व्हाइट टी शर्ट को प्रिंट कराकर वियर कर सकती हैं या मार्केट से 100 रुपये में खरीद सकती हैं। इसके साथ ही घर पर रखी पुरानी जींस को पेयर कर सकती हैं। इसमें आप कम्फर्टेबल भी रहेंगी, इसके साथ ही अगर आप चाहें तो ऊपर से एक पतला स्टॉल डाल सकती हैं।

## कुर्ती करें वियर

होली पार्टी में व्हाइट कलर की प्रिंटेड कुर्ती को भी प्लाजो या लूज जींस के साथ वियर कर सकती हैं। साथ में कॉन्ट्रास्ट में चुन्नी डाल सकती हैं ताकि अगर आपके ऊपर पानी पड़ जाए तो आपकी अजीब न लगे। आप चाहें तो बाजार से 100 रुपये में अच्छे कॉटन के कुर्ते से सकती हैं।



## शॉर्ट कुर्ती पहनें

स्टाइल के साथ-साथ आपको कम्फर्टेबल रहना है तो आप होली पार्टी में प्लाजो पैट के साथ कुर्ती वियर कर सकती हैं। इसके साथ ही आप कॉटन के स्टॉल को पेयर करें इससे आप बेहद स्टाइलिश नजर आएंगे। इस तरह की कुर्ती होली प्रिंट में आपको बाजार में काफी सारी मिल जाएंगी।

## ब्राइडल लुक में अट्रैक्टिव दिखने के लिए ट्राई करें ये लेटेस्ट डिजाइन वाला चूड़ा, लुकस में लगेंगे चार चांद

अनन्या मिश्रा

अगर आपकी भी जल्द शादी होने वाली है और आप अट्रैक्टिव और यूनिक चूड़ा ढूंढ रही हैं। तो हम आपको नए चूड़ा डिजाइन के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसे में आप यूनिक डिजाइन के चूड़ा पहन कर अपने दिन को और भी अधिक खास बना सकती हैं।

हर लड़की अपनी शादी के दिन सबसे खास दिखना चाहती है। ऐसे में हर लड़की अपने आउटफिट से लेकर हर चीज को परफेक्ट तरीके से वियर करने के बारे में सोचती है। दुल्हन के आउटफिट में लहंगे समेत कई चीजों का खास ख्याल रखा जाता है। वहीं इसमें ज्वैलरी और चूड़ा भी शामिल है। चूड़ा हर दुल्हन को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है।

ऐसे में आपको बाजार में चूड़ा के बहुत सारे डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में अगर आपकी भी जल्द शादी होने वाली है और आप अट्रैक्टिव और यूनिक चूड़ा ढूंढ रही हैं। तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको नए चूड़ा डिजाइन के बारे में बताने जा रहे हैं।

## राजवाड़ी चूड़ा

अधिकतर दुल्हन लाल रंग का चूड़ा पहनती हैं। लेकिन अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो आप लाल रंग के चूड़ा को जगह राजवाड़ी चूड़ा प ह न



सकती है। राजवाड़ी चूड़ा का डिजाइन काफी अलग और खूबसूरत होता है। जो शादी के दिन दुल्हन के लहंगे के साथ काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। राजवाड़ी चूड़ा रेड, ग्रीन और

गोल्डन रंग में होता है। इसमें बीड्स, स्टोन और पर्ल डिजाइन से बनाया जाता है। जिससे चूड़ा को अट्रैक्टिव लुक देता है।

## राजपूती चूड़ा

हर दुल्हन के लिए राजपूती चूड़ा भी एक बेस्ट ऑप्शन है। इस चूड़ा को कई सारे रंगों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। लेकिन इस चूड़े में सबसे ज्यादा सफेद मोती का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा राजपूती चूड़ा में कलरी स्टाइल का झुमका लगा हुआ होता है। यह चूड़ा काफी ज्यादा यूनिक होता है। ऐसे में आप हर कलर के आउटफिट के साथ इस सफेद मोतियों से सजे चूड़े को मैच करके पहना जा सकता है।

## राजशाही चूड़ा

मल्टीकलर राजशाही चूड़ा भी आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अगर आप इसमें गोल्डन और रेड कलर में चूड़ा पहनना चाहती हैं, तो आप राजशाही चूड़ा ट्राई कर सकती हैं। यह राजशाही चूड़ा में गोल्डन और लाल वर्क किया जाता है, जो इस चूड़े को बेहद यूनिक और काफी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। अगर आपकी भी शादी होने वाली है और आप शादी वाले दिन डार्क कलर का आउटफिट पहन रही हैं, तो इस पर राजशाही चूड़ा काफी अच्छा लगेगा।



# जब प्रतिभाएं निखरती हैं तो समाज भी निखरता है: साय

राज्य खेल अलंकरण समारोह में सम्मानित हुए प्रतिभावान खिलाड़ी- जल्द ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा की जाएगी - वर्मा



**रायपुर।** मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य खेल अलंकरण समारोह में विभिन्न खेल विधाओं के 544 प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रतिभा ईश्वर की देन है, यह समाज को ईश्वर का अनुपम उपहार है। जब प्रतिभाएं निखरती हैं तो समाज भी निखरता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम

की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की। कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और सांसद सुनील सोनी शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में 5 साल बाद प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उनका सम्मान और पुरस्कार मिलने जा रहा है, मैं सभी

खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के शहीदों के नाम पर स्थापित राज्य खेल अलंकरण समारोह का शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली हमारी सरकार द्वारा ही किया गया था। यह बहुत अफसोस की बात है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पिछले 5 सालों से राज्य में खेल अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार को बने

अभी केवल 3 महीने ही हुए हैं। इन थोड़े से ही दिनों में ही राज्य में हमने खेलों के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की आवासीय खेल अकादमी प्रारंभ की जाएगी। राज्य में पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। जशपुर में मांडन खेल स्टेडियम एवं रायगढ़ तथा बलौदाबाजार जिले में इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के निर्माण का निर्णय लिया जा चुका है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा ने वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि वर्ष 2007 से राज्य में उत्कृष्ट खिलाड़ी योजना प्रारंभ की गई है। राज्य में 74 खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा के लिए खिलाड़ियों से प्राप्त आवेदनों के पुनर्परीक्षण हेतु समिति का गठन किया जा चुका है, जल्द ही उत्कृष्ट

खिलाड़ियों की घोषणा की कार्यवाही भी की जाएगी। कार्यक्रम में राज्य शासन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार के लिए 06, शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए 06, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 02, शहीद पंकज विक्रम सम्मान 27, शहीद विनोद चौबे सम्मान के लिए 05 एवं मुख्यमंत्री ट्राफी के लिए 25 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 हेतु शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार के लिए 11, शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए 03, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 01, शहीद पंकज विक्रम सम्मान 16, शहीद विनोद चौबे सम्मान के लिए 05 एवं मुख्यमंत्री ट्राफी के लिए 26 चयनित खिलाड़ियों को ट्राफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को अलंकरण से सम्मानित करते हुए

## 5 साल बाद प्रदेश में खेल अलंकरण समारोह का आयोजन अद्भुत: रमन सिंह



छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य खेल अलंकरण समारोह में शामिल हुए जहां उन्होंने प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन 5 साल बाद हुआ है, इसके लिए प्रदेश के युवाओं ने कड़ा संघर्ष किया, सरकार तक बदल दी और इतने संघर्षों के बाद यह आयोजन और भी अधिक महत्वपूर्ण और अद्भुत हो गया है। इसके साथ ही भाजपा शासनकाल के 15 साल में प्रदेश में खेल के क्षेत्र में शासन की उपलब्धियों को बताते उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में हमने उत्कृष्ट खिलाड़ी नीति बनाई जिसमें अब तक 74 खिलाड़ियों को शासकीय सेवा भी प्रदान की गई है। हमने खिलाड़ियों को राज्योत्सव के अवसर पर गुड्डाधूर सम्मान और तीरंदाजी खेल के लिए महाराजा प्रवीरचंद्र भंज देव सम्मान देने का कार्य किया, विकासखण्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक ग्रामीण खेलकूद तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभ की, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हुआ जो प्रदेश के लिए शान की बात है, बहतराई बिलासपुर में 112 करोड़ की लागत से राज्य का सबसे बड़ा खेल परिसर निर्मित हुआ, राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण पूर्ण हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने राज्य खेल अलंकरण समारोह के आयोजन पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के आने के बाद इन पुरस्कारों की आज 5 साल बाद वापसी हो रही है।

269 खिलाड़ियों को वर्ष 2019-20 के लिए पुरस्कार राशि 30.36 लाख रूपए तथा 2020-21 के लिए 142 खिलाड़ियों को 19 लाख 32 हजार रूपए की पुरस्कार राशि दी गई।

## कांग्रेसी फर्जी किसान बनाकर प्रमं किसान सम्मान निधि तक का करोड़ों रुपए डकार गए : भाजपा

**रायपुर।** भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसकी पिछली भूपेश सरकार के शासनकाल में 854 फर्जी किसान बनाकर प्रधानमंत्री सम्मान निधि के करोड़ों रुपए डकार ले गए। यह देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें कांग्रेसियों ने फर्जी किसान खड़े कर दिए। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने जिस बेहयाई के साथ जनकल्याणकारी, किसानों के हित की योजनाओं तक को अपने लिए घपले-घोटालों के अवसर के तौर पर इस्तेमाल करके गरीबों, किसानों और प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डाला और सरकारी खजाने में संधमारी करके छत्तीसगढ़ को 10,

जनपथ का एटीएम बना रखा था, उसकी अब बड़ी बारीकी से जाँच करके तमाम भ्रष्टाचारियों को सीखचों के पीछे डालने का वक्त आ गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शर्मा ने कहा कि बेमेतरा जिले की बेरला तहसील के बारगांव में 1456 किसानों में 854 के फर्जी होने की शिकायत का सामने आना निश्चित ही गंभीर मामला है। ये फर्जी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने जिस बेहयाई के साथ जनकल्याणकारी, किसानों के हित की योजनाओं तक को अपने लिए घपले-घोटालों के अवसर के तौर पर इस्तेमाल करके गरीबों, किसानों और प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डाला और सरकारी खजाने में संधमारी करके छत्तीसगढ़ को 10,

तरह साफ हो गया है कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों का हक मारकर फर्जी लोगों को भुगतान करवाया और छत्तीसगढ़ के लोगों का हक मारा। कांग्रेस की पिछली सरकार ने किसानों के नाम पर खूब पाखंड रचाया, लेकिन उत्तरप्रदेश में जाकर 50-50 लाख रुपए का मुआवजा बाँटने वाली कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़िया किसानों के हित में कभी सोचा ही नहीं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि अब कांग्रेस की पिछली सरकार के भ्रष्टाचार और फर्जीवादों की तमाम काली करतूतें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिलने देने के भूपेश सरकार ने तमाम शान्नाक जतन किए और लाखों किसानों को इसके लाभ से वंचित रखने का साजिशजाना उपक्रम किया।

## लोस क्षेत्र का एक-एक कार्यकर्ता स्वयं में प्रत्याशी: सरोज पांडेय



**कोरिया बैकुंठपुर -** गुरुवार 14 मार्च को कोरिया लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कोरिया जिला भाजपा कार्यलय बैकुंठपुर में आयोजित नगर मंडल की बैठक में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं लोकसभा प्रत्याशी डॉ. सरोज पांडेय ने 21 बूथ एवं 6 शक्ति केंद्र से आये कार्यकर्ताओं की परिचयात्मक एवं कामकाज के संबंध में बैठक ली। बैठक में डॉ. सरोज पांडेय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कोरिया का लोकसभा उम्मीदवार बनाकर भेजा है लेकिन इस चुनाव में लोकसभा क्षेत्र का एक-एक कार्यकर्ता स्वयं में एक प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं। मैं जहां-जहां जा रही हूँ वहां

कार्यकर्ताओं के बीच का उत्साह देखकर लग रहा है कि निश्चित रूप से लोकसभा में कमल खिलाने जा रहा है। सुश्री पांडेय ने कहा कि विगत 5 साल कोरिया लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने ऐसे सांसद को देखा है जिसने चुनाव जीतने के बाद कभी क्षेत्र की ओर मुड़कर झांका तक नहीं। आज जब हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं तो जनता स्वयं कांग्रेस सांसद को कार्यकाल के दौरान लायता होना बता रही है, साथ ही उन्होंने विकास कार्य करना तो दूर क्षेत्र की जनता का सुख दुख भी नहीं बांटा और हमेशा केंद्र सरकार द्वारा राश्रहित में लिए गए फेंसले को सदन में विरोध करती रहीं। सुश्री पांडेय ने कहा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है की यहां के जनता के उम्मीदों पर खरा उतरू और इस क्षेत्र का विकास करू।

## पहले असंतोष और अब संतोष के कारण होगी भूपेश की विदाई- भरत लाल वर्मा

महादेव एप वाले कका पर किसी को भरोसा नहीं

**रायपुर।** भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भरतलाल वर्मा ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी से जनता में असंतोष व्याप्त था जिसके कारण प्रदेश की जनता ने उन्हें विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त देते हुए कांग्रेस को सत्ता से भी बेदखल किया। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की है वह हास्यप्रद है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़े-बड़े घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी को जनता ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सबक सिखाया उससे कांग्रेस पार्टी अभी तक सीख नहीं ले पाई है जिसके कारण कांग्रेस पार्टी बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी से जनता में असंतोष व्याप्त था जिसके कारण प्रदेश की जनता ने उन्हें विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त देते हुए कांग्रेस को सत्ता से भी बेदखल किया। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की है वह हास्यप्रद है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़े-बड़े घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी को जनता ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में

सबक सिखाया उससे कांग्रेस पार्टी अभी तक सीख नहीं ले पाई है जिसके कारण कांग्रेस पार्टी बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी से जनता में असंतोष व्याप्त था जिसके कारण प्रदेश की जनता ने उन्हें विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त देते हुए कांग्रेस को सत्ता से भी बेदखल किया। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की है वह हास्यप्रद है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़े-बड़े घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी को जनता ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में

विकास के नाम पर केवल छत्तीसगढ़ में बड़े-बड़े घोटाले किए हैं केंद्र मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के विकास में नए आयाम गढ़े हैं। प्रदेश महामंत्री वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए रेलवे का सौन्दर्यकरण किया, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, दिव्यांग प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाए इसके साथ ही साथ अनेक योजनाएं संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए संचालित की हैं जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हुए छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाकर प्रदेश की विकास को दुगुनी गति देने का काम किया। हम ग्यारह सीटों पर विजय हासिल कर पूरे देश में चार सौ सीटों का लक्ष्य पूरा करेंगे।

## टिकट छिन जाने के डर से बैज खीझ रहे हैं- भाजपा



**रायपुर।** भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा है कि महतारी वंदन योजना में घोटाले का आरोप लगाकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज दरअसल प्रत्याशी के तौर पर अपनी दावेदारी छिन जाने के डर से उपजी खीझ का प्रदर्शन कर रहे हैं। देव ने कहा कि तीन माह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार जिस तेज गति से मोदी की गारंटी पूरी कर रही है, वह आपसे आपमें मिसाल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज को यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जनता के हित के पैसों पर डाका डालकर घपले-घोटाले करने वाली कांग्रेस की पिछली सरकार को जनता ने उसकी सही जगह दिखा दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि महतारी वंदन योजना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने तथ्यों से परे जाकर जो मिथ्या प्रलाप किया है, उस झॉसे में प्रदेश की मातृ-शक्ति और जनता जनार्दन कर्ताई नहीं आने वाली है क्योंकि प्रदेश की जनता को भाजपा के भ्रष्टाचारमुक्त शासन-प्रशासन और मोदी की गारंटी पर अटूट विश्वास है, और यही विश्वास प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित कर चुकी है।

**नहीं चलेगी निर्वाचन कार्यों में लापरवाही**  
**रायपुर।** रायपुर जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के जरूरी तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज जिले के अधिकारियों की बैठक में अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की और सभी तैयारियां समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान सभी अधिकारी सोपे गए दायित्वों का पारदर्शिता से निर्वहन करें। निर्वाचन कार्यों में लापरवाही नहीं चलेगी। निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ विश्वदीप, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर बन्दे सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर ने मतदान सामग्री वितरण वापसी केन्द्रों में मतदान कर्मियों के लिए पेयजल एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन केन्द्रों पर बिजली की व्यवस्था, आपात स्थिति के लिए जनरेटर, फायर ब्रिगेड वाहन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने मतदान केन्द्रों में न्यूनतम आवश्यक व्यवस्थाएँ जैसे छाया, रैम्प, पीने का पानी, शौचालय आदि मतदान दिवस के पहले सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

**1.35 लाख की शराब जळ**  
**रायपुर।** सचिव सह आबकारी आयुक्त सुश्री आर संगीता के निर्देशानुसार, कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के दिशा-निर्देश में एवं उपायुक्त आबकारी श्री विकास कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग रायपुर द्वारा अवैध मदिरा संग्रहण/परिवहन पर कार्यवाही की गई इसमें मध्यप्रदेश की रेड लेबल स्कॉच व्हिस्की सहित कुल 153.04 बल्ले लीटर कीमती लगभग 135000/-रुपये अवैध मदिरा जप्त कर 20 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण कायम कर गैर जमानतीय धाराओं में 9 आरोपियों को जेल भेजा गया, साथ ही अवैध मदिरा परिवहन में 4 दोपहििया वाहन भी जप्त किया गया। जिले की आबकारी टीम द्वारा छापामार कार्यवाही कर आरोपी से जप्त कर 34(2), 36, 59(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

**अग्निवीर के प्रति समाज में होगा सम्मान: शर्मा**  
**रायपुर।** उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा अन्य अतिथियों ने आज छत्तीसगढ़ के चयनित अग्निवीरों का शहीद स्मारक भवन में सम्मान किया। अग्निवीर थलसेना के लिए वर्ष 2023 के 870 और वर्ष-2022 में 434 अग्निवीरों का चयन हुआ है। शहीद स्मारक भवन में आज आयोजित इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया और उनका उत्साह वर्धन किया। युवा अग्निवीर सम्मान पाकर जोश से भर गए और भारत माता की जय के जयकरे लगाए। इस अवसर पर राजगार एप का भी लोकार्पण किया गया। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने अग्निवीरों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें गौरव है 11 हजार 500 ने पंजीयन कराया और उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन चयन परीक्षा दी फलस्वरूप थलसेना में 876 युवाओं का चयन हुआ। इस बार 13 हजार से अधिक ने पंजीयन कराया और विश्वास है कि हम रिकार्ड सेलेक्सन लेंगे।

**एनएचएम के सविदा कर्मियों की 27 फीसदी बढ़ेगी सैलरी**  
**रायपुर।** स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एन.एच.एम. के सविदा कर्मियों को आश्वासन दिया कि उन्हें 27 फीसदी वेतन वृद्धि का लाभ निश्चित रूप से दिलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने एन.डी. एन.एच.एम. को अन्य राज्यों में हुए नियमितकरण का अध्ययन करने के निर्देश भी दिये। छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ की महिला पदाधिकारियों ने आज युवा स्वास्थ्य मंत्री के निवास कार्यालय में उनसे मुलाकात की। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने इस दौरान अपना 18 सूत्रीय ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने ज्ञापन पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए आश्वासन दिया कि 27 फीसदी वेतन वृद्धि का लाभ प्रदेश के सभी सविदा कर्मियों को दिलाया जाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सविदा कर्मियों को निश्चित तौर पर इसका लाभ दिलाया जाएगा। साथ ही महिला पदाधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि तमिलनाडु और मणिपुर में एन.एच.एम. सविदा कर्मियों का नियमितकरण किया गया है।

**मुख्यमंत्री ने लांच किये छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बनाये गये दो एप**  
**रायपुर।** पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों को ट्रैक करने तथा अपराध की विवेचना के लिए तेजी से टेकनालाजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आईओ मितान मोबाइल एप लांच किया, यह विवेचना अधिकारियों के लिए काफी उपयोगी होगा। साथ ही उन्होंने दुर्ग पुलिस रेंज द्वारा तैयार किये गये त्रिनयन एप का भी शुभारंभ किया। इस त्रिनयन एप के माध्यम से 100 किमी तक के दायरे के सभी सीसीटीवी कैमरे के लोकेशन ट्रेस किये जा सकेंगे, इससे अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने टेकनालाजी को विभाग में लगातार शामिल करने के लिए पुलिस अधिकारियों की इस मौके पर प्रशंसा की है। इस तरह काम करता है त्रिनयन एप - गौरवतलब है कि त्रिनयन एप दुर्ग पुलिस रेंज द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत आने वाले सभी निजी और सार्वजनिक सीसीटीवी के स्थानों की संपर्क जानकारी और सीसीटीवी नेटवर्क से संबंधित अन्य प्रासंगिक विवरण प्रबंधन करना है। त्रिनयन का उद्देश्य महत्वपूर्ण निगरानी डेटा तक पहुंच बनाकर प्रकरणों की जांच के समय को न्यूनतम करना है।

**मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में हुए शामिल**  
**रायपुर।** खेलों से शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और मानसिक एकाग्रता भी बढ़ती है। ऐसे आयोजनों से जवानों का उत्साह भी बढ़ता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज पीटीएस माया केंद्र, रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने समापन समारोह में पुलिस मार्च पास्ट की सलामी ली और विजेता प्रतिभागियों और टीम को पुरस्कृत किया। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने प्रतिभागी खिलाड़ी एवं टीम का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि पुलिस का कार्य काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक मजबूती का लाभ प्रवेश के सभी सविदा कर्मियों को दिलाया जाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सविदा कर्मियों को निश्चित तौर पर इसका लाभ दिलाया जाएगा। साथ ही महिला पदाधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि तमिलनाडु और मणिपुर में एन.एच.एम. सविदा कर्मियों का नियमितकरण किया गया है।

## आईओ मितान मोबाइल एप विवेचना अधिकारियों को करेगा सहयोग

**मुख्यमंत्री ने लांच किये छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बनाये गये दो एप**  
**रायपुर।** पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों को ट्रैक करने तथा अपराध की विवेचना के लिए तेजी से टेकनालाजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आईओ मितान मोबाइल एप लांच किया, यह विवेचना अधिकारियों के लिए काफी उपयोगी होगा। साथ ही उन्होंने दुर्ग पुलिस रेंज द्वारा तैयार किये गये त्रिनयन एप का भी शुभारंभ किया। इस त्रिनयन एप के माध्यम से 100 किमी तक के दायरे के सभी सीसीटीवी कैमरे के लोकेशन ट्रेस किये जा सकेंगे, इससे अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने टेकनालाजी को विभाग में लगातार शामिल करने के लिए पुलिस अधिकारियों की इस मौके पर प्रशंसा की है। इस तरह काम करता है त्रिनयन एप - गौरवतलब है कि त्रिनयन एप दुर्ग पुलिस रेंज द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत आने वाले सभी निजी और सार्वजनिक सीसीटीवी के स्थानों की संपर्क जानकारी और सीसीटीवी नेटवर्क से संबंधित अन्य प्रासंगिक विवरण प्रबंधन करना है। त्रिनयन का उद्देश्य महत्वपूर्ण निगरानी डेटा तक पहुंच बनाकर प्रकरणों की जांच के समय को न्यूनतम करना है।